

अध्याय 5

सम्मिश्र संख्याएँ और द्विघातीय समीकरण (Complex Numbers and Quadratic Equations)

❖ *Mathematics is the Queen of Sciences and Arithmetic is the Queen of Mathematics.* – GAUSS ❖

5.1 भूमिका (Introduction)


पिछली कक्षाओं में हमने एक और दो चर की एक घातीय समीकरणों का तथा एक चर की द्विघातीय समीकरणों का अध्ययन किया है। हमने देखा है कि समीकरण $x^2 + 1 = 0$ का कोई वास्तविक हल नहीं है क्योंकि $x^2 + 1 = 0$ से हमें $x^2 = -1$ प्राप्त होता है और प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग श्रेणीतर होता है इसलिए वास्तविक संख्या प्रणाली को बृहद प्रणाली के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि हम समीकरण $x^2 = -1$ का हल प्राप्त कर सकें। वास्तव में, मुख्य उद्देश्य समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ का हल प्राप्त करना है, जहाँ $D = b^2 - 4ac < 0$ है, जोकि वास्तविक संख्याओं की प्रणाली में संभव नहीं है।

5.2 सम्मिश्र संख्याएँ (Complex Numbers)

हम कल्पना करें कि $\sqrt{-1}$ संकेतन i से निरूपित है। तब हमें प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि i , समीकरण $x^2 + 1 = 0$ का एक हल है।

$a + ib$ के प्रारूप की एक संख्या जहाँ a और b वास्तविक संख्याएँ हैं, एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, $2 + i3$, $(-1) + \dots$, सम्मिश्र संख्याएँ हैं।

सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$ के लिए, a वास्तविक भाग कहलाता है तथा $\text{Re}z$ द्वारा निरूपित किया जाता है और b काल्पनिक भाग कहलाता है तथा $\text{Im}z$ द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि $z = 2 + i5$, तब $\text{Re}z = 2$ और $\text{Im}z = 5$ दो सम्मिश्र संख्याएँ $z_1 = a + ib$ तथा $z_2 = c + id$ समान होंगी यदि $a = c$ और $b = d$.



W. R. Hamilton
(1805-1865 A.D.)

उदाहरण 1 यदि $4x + i(3x - y) = 3 + i(-6)$, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएँ हैं, तब x और y ज्ञात कीजिए।

हल हमें दिया है

$$4x + i(3x - y) = 3 + i(-6) \quad \dots (i)$$

दोनों ओर के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को समान लेते हुए, हमें प्राप्त होता है,

$$4x = 3, 3x - y = -6,$$

जिन्हें युगपत् हल करने पर, और

5.3 सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित (Algebra of Complex Numbers)

इस भाग में, हम सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित का विकास करेंगे।

5.3.1 दो सम्मिश्र संख्याओं का योग (Addition of two complex numbers) यदि $z_1 = a + ib$ और $z_2 = c + id$ कोई दो सम्मिश्र संख्याएँ हैं। तब $z_1 + z_2$ के योग को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है:

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d), \text{ जो कि पुनः एक सम्मिश्र संख्या है।}$$

उदाहरण के लिए, $(2 + i3) + (-6 + i5) = (2 - 6) + i(3 + 5) = -4 + i8$

सम्मिश्र संख्याओं के योग निम्नलिखित प्रणुणों को संतुष्ट करते हैं।

(i) **संवरक नियम** दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है, अर्थात् सारी सम्मिश्र संख्याओं z_1 तथा z_2 के लिए, $z_1 + z_2$ एक सम्मिश्र संख्या है।

(ii) **क्रम विनिमय नियम** किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं z_1 तथा z_2 के लिए

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

(iii) **साहचर्य नियम** किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं z_1 , z_2 तथा z_3 के लिए

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3).$$

(iv) **योगात्मक तत्समक का अस्तित्व** सम्मिश्र संख्या $0 + i0$ (0 के द्वारा दर्शाया जाता है), योगात्मक तत्समक अथवा शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाता है जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z , $z + 0 = z$.

(v) **योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व** प्रत्येक सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$, के लिए हमें सम्मिश्र संख्या $-a + i(-b)$ ($-z$ के द्वारा दर्शाया जाता है) प्राप्त होती है, जोकि योगात्मक प्रतिलोम अथवा z का ऋण कहलाता है। हम प्रेक्षित करते हैं कि $z + (-z) = 0$ (योगात्मक तत्समक)।

5.3.2 दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर (Difference of two complex numbers) किन्हीं दी गई सम्मिश्र संख्याओं z_1 और z_2 का अंतर $z_1 - z_2$ निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है:

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= z_1 + (-z_2) \text{ उदाहरणार्थ } (6 + 3i) - (2 - i) = (6 + 3i) + (-2 + i) \text{ और} \\ (2 - i) + (-6 - 3i) &= -4 - 4i \end{aligned}$$

5.3.3 सम्मिश्र संख्याओं का गुणन (Multiplication of two complex numbers) मान लीजिए $z_1 = a + ib$ तथा $z_2 = c + id$ कोई दो सम्मिश्र संख्याएँ हैं। तब गुणनफल $z_1 \cdot z_2$ निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है:

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

उदाहरण के लिए, $(3 + i5)(2 + i6) = (3 \times 2 - 5 \times 6) + i(3 \times 6 + 5 \times 2) = -24 + i28$

सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की संक्रिया में निम्नलिखित प्रगुण होते हैं:

- (i) **संवरक नियम** दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, एक सम्मिश्र संख्या होती है, सारी सम्मिश्र संख्याओं z_1 तथा z_2 के लिए, गुणनफल z_1, z_2 एक सम्मिश्र संख्या होती है।
- (ii) **क्रम विनियम नियम** किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं z_1 तथा z_2 के लिए,

$$z_1 z_2 = z_2 z_1$$

- (iii) **साहचर्य नियम** किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं z_1, z_2 तथा z_3 के लिए

$$(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$$

- (iv) **गुणात्मक तत्समक का आस्तित्व सम्मिश्र संख्या** $1 + i0$ (1 के द्वारा दर्शाया जाता है), गुणात्मक तत्समक अथवा एकल सम्मिश्र संख्या कहलाता है जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z के लिए $z \cdot 1 = z$

- (v) **गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व** प्रत्येक शून्येतर सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$

$(a \neq 0, b \neq 0)$ के लिए, हमें सम्मिश्र संख्या $\frac{a}{a^2 + b^2} + i \frac{-b}{a^2 + b^2}$ (अथवा z^{-1} के द्वारा दर्शाया जाता है) प्राप्त होती है, z की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है जिससे

कि (गुणात्मक तत्समक)

- (vi) **बंटन नियम** किन्हीं तीन सम्मिश्र संख्याओं z_1, z_2, z_3 के लिए
 - (a) $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$
 - (b) $(z_1 + z_2)z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$

5.3.4 दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल (Division of two complex numbers) किन्हीं दो

दो हुई सम्मिश्र संख्याओं z_1 तथा z_2 के लिए, जहाँ $z_2 \neq 0$, भागफल निम्नलिखित प्रकार से

परिभाषित किया जाता है

उदाहरण के लिए, मान लिया $z_1 = 6 + 3i$ और $z_2 = 2 - i$

$$\text{तब } \frac{z_1}{z_2} = \left((6+3i) \times \frac{1}{2-i} \right) = \left(\frac{2}{2^2 + (-1)^2} + i \frac{-(-1)}{2^2 + (-1)^2} \right)$$

=

=

5.3.5 i की घात (Power of i) हमें ज्ञात है :

$$i^3 = i^2 i = (-1) i = -i,$$

$$\text{इत्यादि, } \frac{(i^5)(i^2)(i^2)(i^2)(i^2)}{5!} = \frac{1}{5} i(9+1) = \frac{1}{5} i = -1,$$

इसी प्रकार हम और भी प्राप्त करते हैं:

$$i^{-3} = \frac{1}{i^3} = \frac{1}{-i} \times \frac{i}{i} = \frac{i}{1} = i, \quad i^{-4} = \frac{1}{i^4} = \frac{1}{1} = 1$$

सामान्य रूप से, किसी पूर्णांक k के लिए, $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$

5.3.6 एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल (The square roots of a negative real number)

ज्ञात है: $i^2 = -1$ और $(-i)^2 = i^2 = -1$. इसलिए -1 के वर्गमूल i और $-i$ हैं।

यद्यपि चिह्न $\sqrt{-1}$, का अर्थ हमारे लिए केवल i होगा।

अब हम देख सकते हैं कि i और $-i$ दोनों समीकरण $x^2 + 1 = 0$ अथवा $x^2 = -1$ के हल हैं।

इसी प्रकार,

$$i^2 = 3(-1) = -3$$

$$\text{और } (-\sqrt{3}i)^2 = (-\sqrt{3})^2 i^2 = -3$$

इसलिए -3 के वर्गमूल $\sqrt{3}i$ और हैं।

फिर से केवल $\sqrt{3}i$ को दर्शाने के लिए ही प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात्

$=$

सामान्यतया यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब $= = ,$

हम जानते हैं कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के लिए यह

परिणाम तब भी सत्य होगा, जब $a > 0, b < 0$ या $a < 0, b > 0.$

क्या होगा ? यदि $a < 0, b < 0,$ हम इसकी जाँच करते हैं

नोट कीजिए कि $i^2 = \sqrt{-1} \sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$ जोकि इस बात का विरोधाभास है कि $i^2 = -1$

इसलिए, यदि a और b दोनों ऋण वास्तविक संख्याएँ हैं।

आगे यदि a और b दोनों में से कोई भी शून्य है, तब स्पष्ट रूप से $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab} = 0$

5.3.7 तत्समक (Identities) हम निम्नलिखित तत्समक को सिद्ध करते हैं:

$$(z_1 + z_2)^2 = z_1^2 + z_2^2 + 2z_1 z_2$$

उपर्युक्त हमें प्राप्त होता है, $(z_1 + z_2)^2 = (z_1 + z_2)(z_1 + z_2)$

$$= (z_1 + z_2) z_1 + (z_1 + z_2) z_2 \quad (\text{बंटन नियम})$$

$$= z_1^2 + z_2 z_1 + z_1 z_2 + z_2^2 \quad (\text{बंटन नियम})$$

$=$ (गुणन का क्रम विनिमय नियम)

$=$

इसी भाँति हम निम्नलिखित तत्समकों को सिद्ध कर सकते हैं:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

वास्तव में बहुत से दूसरे तत्समकों को जोकि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य हैं, सभी सम्मिश्र संख्याओं की सत्यता के लिए सिद्ध किया जा सकता है।

उदाहरण 2 निम्नलिखित को $a + ib$ के रूप में व्यक्त करें:

$$(i) \quad (-5i)\left(\frac{1}{8}i\right) \qquad (ii) \quad \left(-\frac{1}{8}i\right)^3$$

हल (i) = = = =

$$(ii) = = \frac{1}{256}(i^2)^2$$

उदाहरण 3 $(5 - 3i)^3$ को $a + bi$ के रूप में व्यक्त करें:

$$\begin{aligned} \text{हल हमें प्राप्त है, } (5 - 3i)^3 &= 5^3 - 3 \times 5^2 \times (3i) + 3 \times 5 (3i)^2 - (3i)^3 \\ &= 125 - 225i - 135 + 27i = -10 - 198i \end{aligned}$$

उदाहरण 4 $(-\sqrt{3} + \sqrt{-2})(2\sqrt{3} - i)$ को $a + ib$ के रूप में व्यक्त करें।

हल हमें प्राप्त है =

$$= \frac{(-\sqrt{3} + \sqrt{-2})(2\sqrt{3} - i)}{\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (\sqrt{-2})^2}} = \frac{(-\sqrt{3} + \sqrt{-2})(2\sqrt{3} - i)}{\sqrt{3+4}} = \frac{(-\sqrt{3} + \sqrt{-2})(2\sqrt{3} - i)}{\sqrt{7}}$$

5.4 सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुगमी (The Modulus and the Conjugate of a Complex Number)

मान लीजिए $z = a + ib$ एक सम्मिश्र संख्या है। तब z का मापांक, जो $|z|$ द्वारा दर्शाया जाता है, को ऋणेतर वास्तविक संख्या $\sqrt{a^2 + b^2}$ द्वारा परिभाषित किया जाता है अर्थात् $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ और z का संयुगमी, जो \bar{z} द्वारा दर्शाया जाता है, सम्मिश्र संख्या $a - ib$ होता है, अर्थात् $\bar{z} = a - ib$

उदाहरण के लिए,

$$, |2 - 5i| = \sqrt{2^2 + (-5)^2} = \sqrt{29},$$

और $\overline{3+i} = 3-i$, $\overline{3-i} = 3+i$

हम प्रेक्षित करते हैं कि ऋणेतर सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$ का गुणात्मक प्रतिलोम

$$z^{-1} = = = = , \text{ होता है}$$

अर्थात् z

अग्रतः किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं z_1 एवं z_2 के लिए निम्नलिखित निष्कर्षों को सुगमता से व्युत्पन्न किया जा सकता है:

$$(i) |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$(ii) \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \text{ यदि } |z_2| \neq 0$$

(iii)

$$(iv) \overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$$

$$(v) \text{यदि } z_2 \neq 0.$$

उदाहरण 5 $2 - 3i$ का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।

हल मान लिया $z = 2 - 3i$

तब $\bar{z} = 2 + 3i$ और

इसलिए, $2 - 3i$ का गुणात्मक प्रतिलोम

$$z^{-1} \quad \text{प्राप्त होता है।}$$

ऊपर दिया गया सारा हल निम्नलिखित ढंग से भी दिखाया जा सकता है:

$$z^{-1} = \frac{1}{2 - 3i} = \frac{2 + 3i}{(2 - 3i)(2 + 3i)} = \frac{2 + 3i}{2^2 - (3i)^2} = \frac{2 + 3i}{13} = \frac{2}{13} + \frac{3}{13}i$$

उदाहरण 6 निम्नलिखित को $a + ib$ के रूप में व्यक्त करें।

$$(i) \frac{5 + \sqrt{2}i}{1 - \sqrt{2}i} \quad (ii) i^{-35}$$

हल (i) $\frac{5 + \sqrt{2}i}{1 - \sqrt{2}i} = \frac{5 + \sqrt{2}i}{1 - \sqrt{2}i} \times \frac{1 + \sqrt{2}i}{1 + \sqrt{2}i} = \frac{5 + 5\sqrt{2}i + \sqrt{2}i - 2}{1 - (\sqrt{2}i)^2}$

$$= \frac{3 + 6\sqrt{2}i}{1 + 2} = \frac{3(1 + 2\sqrt{2}i)}{3} = 1 + 2\sqrt{2}i$$

$$(ii) i^{-35} = \frac{1}{i^{35}} = \frac{1}{(i^2)^{17} i} = \frac{1}{-i} \times \frac{i}{i} = \frac{i}{-i^2} = i$$

प्रश्नावली 5.1

प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को $a + ib$ के रूप में व्यक्त कीजिए।

1. $(5i)\left(-\frac{3}{5}i\right)$

2.

3.

4. $3(7 + i7) + i(7 + i7)$

5. $(1 - i) - (-1 + i6)$

6. $\left(\frac{1}{5} + i\frac{2}{5}\right) - \left(4 + i\frac{5}{2}\right)$

7.

8. $(1 - i)^4$

9. $\left(\frac{1}{3} + 3i\right)^3$

10.

प्रश्न 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।

11. $4 - 3i$

12.

13. $-i$


14. निम्नलिखित व्यंजक को $a + ib$ के रूप में व्यक्त कीजिए:

$$\frac{\sqrt{51} + \frac{19}{2}\sqrt{15}}{\left(\frac{-1}{2} + \frac{1}{2}i\right)} + \frac{\left(3 - i\sqrt{15}\right)}{\left(\sqrt{3} + \sqrt{2}i\right) - \left(\sqrt{3} - i\sqrt{2}\right)} - \left(-\frac{4}{3} + i\right)$$

5.5 आर्गेंड तल और ध्रुवीय निरूपण (Argand Plane and Polar Representation)

जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं (x, y) के प्रत्येक क्रमित युग्म के संगत, हमें XY तल में दो पारस्परिक लंब रेखाओं के संदर्भ में जिन्हें x-अक्ष y-अक्ष द्वारा जाना जाता है, एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है। अर्थात् सम्मिश्र संख्या $x + iy$ का जो क्रमित युग्म (x, y) के संगत है, तल में एक अद्वितीय बिंदु (x, y) के रूप में ज्यामितीय निरूपण किया जा सकता है। यह कथन विलोमतः सत्य है।

कुछ सम्मिश्र संख्याओं जैसे $2 + 4i$, $-2 + 3i$, $0 + 1i$, $2 + 0i$, $-5 - 2i$ और $1 - 2i$ को जोकि क्रमित युग्मों $(2, 4)$, $(-2, 3)$, $(0, 1)$, $(2, 0)$, $(-5, -2)$ और $(1, -2)$ के संगत हैं, आकृति 5.1 में बिंदुओं A, B, C, D, E और F द्वारा ज्यामितीय निरूपण किया गया है।




आकृति 5.1

तल, जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, सम्मिश्र तल या आर्गेंड तल कहलाता है।


आर्गेंड तल में सम्मिश्र संख्या $(x + iy)$ का मापांक बिंदु $P(x, y)$ से मूल बिंदु $O(0,0)$ के बीच की दूरी द्वारा प्राप्त होता है (आकृति 5.2)।

x -अक्ष पर बिंदु, सम्मिश्र संख्याओं $a + i0$ रूप के संगत होते हैं और y -अक्ष पर बिंदु, सम्मिश्र संख्याओं $0 + ib$ रूप के संगत होते हैं। आर्गेंड तल में x -अक्ष और y -अक्ष क्रमशः वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष कहलाते हैं।

आर्गेंड तल में सम्मिश्र संख्या $z = x + iy$ और इसकी संयुगमी $\bar{z} = x - iy$ को बिंदुओं $P(x, y)$ और $Q(x, -y)$ के द्वारा निरूपित किया गया है। ज्यामितीय भाषा से, बिंदु $(x, -y)$ वास्तविक अक्ष के सापेक्ष बिंदु (x, y) का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है (आकृति 5.3)।



आकृति 5.2



आकृति 5.3

5.5.1 एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण (Polar representation of a complex number) माना कि बिंदु P ऋणेतर सम्मिश्र संख्या $z = x + iy$ का निरूपण करता है। माना कि दिष्ट रेखाखंड OP की लंबाई r है और θ वह कोण है जो OP , x -अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाता है।

हम ध्यान दें कि P वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म (r, θ) से अद्वितीय रूप से निर्धारित किया जाता है। (r, θ) बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं आकृति 5.4 देखिए।


हम मूल बिंदु को ध्रुव तथा x -अक्ष की धन दिशा को प्रारंभिक रेखा मानते हैं।

यहाँ $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ और इसलिए $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। यहाँ


को z

का मापांक कहते हैं और θ , सम्मिश्र संख्या का कोणांक या आयाम कहलाता है तथा कोणांक z से निरूपित होता है।


किसी सम्मिश्र संख्या $z \neq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$ में θ का केवल मान संगत हैं। फिर भी, 2π की लंबाई के किसी दूसरे, अंतराल के लिए, उदाहरण के तौर पर $-\pi < \theta \leq \pi$ इस प्रकार का एक अंतराल हो सकता है। हम θ का ऐसा मान, जिसमें की $-\pi < \theta \leq \pi$, z का मुख्य आयाम कहलाता है और $\arg z$ से निरूपित किया जाता है। आकृति 5.5 और 5.6 देखिए।



आकृति 5.4



आकृति 5.5

आकृति 5.6 ($-\pi < \theta \leq \pi$)

उदाहरण 7 सम्मिश्र संख्या

को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए।

हल माना $1 = r \cos \theta, \sqrt{3} = r \sin \theta$


दोनों तरफ का वर्ग करके और जोड़ने पर हमें प्राप्त है,

अर्थात्

(प्रतिदर्श रूप से, $r > 0$)

इसलिए

$$\text{इनसे प्राप्त होता है } \theta = \frac{\pi}{3}$$



आकृति 5.7

इसलिए अपेक्षित ध्रुवीय रूप

सम्मिश्र संख्या संख्या को आकृति 5.7 में दर्शाया गया है।

उदाहरण 8 सम्मिश्र संख्या

को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए।

$$\text{हल दी हुई सम्मिश्र संख्या } \frac{-16}{1+i\sqrt{3}} = \frac{-16}{1+i\sqrt{3}} \times \frac{1-i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$$

$$= \frac{-16(1-i\sqrt{3})}{1-(i\sqrt{3})^2} = \frac{-16(1-i\sqrt{3})}{1+3}$$

$$= -4(1-i\sqrt{3}) = -4 + i4\sqrt{3} \quad (\text{आकृति 5.8})$$


माना

$$-4 = r \cos \theta, 4\sqrt{3} = r \sin \theta$$

दोनों ओर वर्ग करके और जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है $16 + 48 =$

जिससे हमें प्राप्त होता है, $r^2 = 64$, अर्थात् $r = 8$

$$\text{इसलिए, } \cos \theta = -\frac{1}{2}, \sin \theta =$$



आकृति 5.8

इसलिए, आवश्यक ध्रुवीय रूप =

प्रश्नावली 5.2

प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए:

$$1. \ z = -1 - i \quad 2. \ z = - + i$$

प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए:

$$\begin{array}{lll} 3. \ 1 - i & 4. \ -1 + i & 5. \ -1 - i \\ 6. \ -3 & 7. \ +i & 8. \ i \end{array}$$

5.6 द्विघातीय समीकरण (Quadratic Equations)

हमें पहले ही द्विघातीय समीकरणों के बारे में जानकारी है और हमने उनकों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उन स्थितियों में हल किया है जहाँ विविक्तकर ≥ 0 है। अब हम निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के बारे में विचार करते हैं:

$ax^2 + bx + c = 0$ जिसमें a, b, c वास्तविक गुणांक हैं और $a \neq 0$

मान लीजिए कि $b^2 - 4ac < 0$ $\sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{b^2} \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$

हम जानते हैं कि हम सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसलिए उपर्युक्त समीकरण के हल सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में हैं जोकि

$$= \frac{-b \pm \sqrt{4ac - b^2}}{2a} i \text{ द्वारा प्राप्त होते हैं।}$$

टिप्पणी यहाँ पर, कुछ लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे, कि किसी समीकरण में कितने मूल होंगे? इस संदर्भ में, निम्नलिखित प्रमेय को उल्लेख (बिना उपपत्ति) के किया गया है जिसे 'बीजगणित की मूल प्रमेय' के रूप में जाना जाता है।

"एक बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल होता है"।

इस प्रमेय के फलस्वरूप हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम पर पहँचते हैं।

" n घात की एक बहुपद समीकरण में n मूल होते हैं।"

उदाहरण 9 $x^2 + 2 = 0$ को हल कीजिए।

हल : हमें दिया है $x^2 + 2 = 0$

या $x^2 = -2$

अर्थात् $x = \pm \sqrt{-2} = \pm i$

उदाहरण 10 $x^2 + x + 1 = 0$ को हल कीजिए।

$$\text{हल} \quad \text{यहाँ } b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$$

$$\text{इसलिए, इसके हल } x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2 \times 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \text{ हैं।}$$

उदाहरण 11 $\sqrt{5}x^2 + x + \sqrt{5} = 0$ को हल कीजिए।

$$\text{हल} \quad \text{यहाँ, समीकरण का विविक्तकर} \quad = 1 - 20 = -19 \text{ है।}$$

$$\text{इसलिए हल } \frac{-1 \pm \sqrt{-19}}{2\sqrt{5}} = \frac{-1 \pm \sqrt{19}i}{2\sqrt{5}} \text{ है।}$$

प्रश्नावली 5.3

निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए:

1. $x^2 + 3 = 0$ 2. $2x^2 + x + 1 = 0$ 3. $x^2 + 3x + 9 = 0$

4. $-x^2 + x - 2 = 0$ 5. $x^2 + 3x + \frac{25}{4} = 0$ 6. $x^2 + 5x + 13 = 0$

7. $\sqrt{2}x^2 + x + \sqrt{2} = 0$ 8. $\frac{(1+2i)(2-i)}{(5+2i)(2i)} = \frac{63-16i}{25}$

9.

10.

विविध उदाहरण

उदाहरण 12 का संयुग्मी ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल} \quad \text{यहाँ} \quad = \quad =$$

$$= \frac{63}{25} - \frac{16}{25}i$$

$$\text{इसलिए } \frac{(3-2i)(2+3i)}{(1+2i)(2-i)} \text{ का संयुग्मी,} \quad \text{है।}$$

उदाहरण 13 निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए।

$$(i) \frac{1+i}{1-i} \quad (ii)$$

$$\text{हल हमें प्राप्त है, } = 0 + i$$

$$\text{अब, } 0 = r \cos \theta, 1 = r \sin \theta$$

दोनों ओर वर्ग करके जोड़ते हुए हमें प्राप्त होता है, $r^2 = 1$ अर्थात् $r = 1$ तथा $\cos \theta = 0, \sin \theta = 1$

$$\text{इसलिए, } \theta = \frac{\pi}{2}$$

इस प्रकार का मापांक 1 है तथा कोणांक होगा।

(ii)

$$\text{मान लीजिए } \frac{1}{2} = r \cos \theta, -\frac{1}{2} = r \sin \theta \quad \frac{(1+i)(i-1)}{\sqrt{2}(i+1)(i-1)(i+1)} = \frac{1-i}{1+1} = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}$$

भाग (i) की तरह हम प्राप्त करते हैं,

$$r = , \cos \theta = , \sin \theta = -$$

इसलिए

$$\frac{1}{1+i} \text{ का मापांक } \quad \text{तथा कोणांक } \quad \text{है।}$$

उदाहरण 14 यदि $x + iy =$ है तो, सिद्ध कीजिए कि $x^2 + y^2 = 1$

$$\text{हल हमें प्राप्त है, } x + iy = \frac{a^2 - b^2 + 2abi}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} + \frac{2ab}{a^2 + b^2} i$$

$$\text{इसलिए, } x - iy = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} - \frac{2ab}{a^2 + b^2} i$$

$$\begin{aligned}\text{इस प्रकार } x^2 + y^2 &= (x + iy)(x - iy) = \frac{(a^2 - b^2)^2}{(a^2 + b^2)^2} + \frac{4a^2b^2}{(a^2 + b^2)^2} \\ &= \frac{(a^2 + b^2)^2}{(a^2 + b^2)^2} = 1\end{aligned}$$

उदाहरण 15 θ का वास्तविक मान बताइए, जबकि

$$\frac{3+2i\sin\theta}{1-2i\sin\theta} \text{ मात्र वास्तविक है।}$$

$$\begin{aligned}\text{हल } \text{ हमें प्राप्त है, } \frac{3+2i\sin\theta}{1-2i\sin\theta} &= \frac{(3+2i\sin\theta)(1+2i\sin\theta)}{(1-2i\sin\theta)(1+2i\sin\theta)} \\ &= \frac{3+6i\sin\theta+2i\sin\theta-4\sin^2\theta}{1+4\sin^2\theta} \\ &= \frac{3-4\sin^2\theta}{1+4\sin^2\theta} + \frac{8i\sin\theta}{1+4\sin^2\theta}\end{aligned}$$

दिया हुआ है कि सम्मिश्र संख्या वास्तविक है।

$$\text{इसलिए } \frac{8\sin\theta}{1+4\sin^2\theta} = 0 \quad \text{अर्थात्} \quad \sin\theta = 0$$

$$\text{अत } \theta = n\pi, n \in \mathbf{Z}.$$

उदाहरण 16 सम्मिश्र संख्या $z = \frac{i-1}{\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}}$ को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए।

$$\begin{aligned}\text{हल } \text{ हमें प्राप्त है, } z &= \frac{i-1}{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i} \\ &= \frac{2(i-1)}{1+\sqrt{3}i} \times \frac{1-\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} = \frac{2(i+\sqrt{3}-1+\sqrt{3}i)}{1+3} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} + \frac{\sqrt{3}+1}{2}i\end{aligned}$$

मान लीजिए $\frac{\sqrt{3}-1}{2} = r \cos \theta, \frac{\sqrt{3}+1}{2} = r \sin \theta$

दोनों ओर वर्ग करके, जोड़ते हुए हमें प्राप्त होता है,

$$r^2 = \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)^2 =$$

अर्थात् r इससे

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \text{ प्राप्त होता है}$$

इसलिए $\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{12}$ (क्यों ?)

अर्थात्, $\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$ ध्रुवीय रूप है।

अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली

1. का मान ज्ञात कीजिए। $\frac{1+i\sqrt{7}}{2+\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{2}(a+bi)}{3+4i}$

2. किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं z_1 और z_2 के लिए, सिद्ध कीजिए:

$$\operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}z_1 \operatorname{Re}z_2 - \operatorname{Im}z_1 \operatorname{Im}z_2$$

3. को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए।

4. यदि , तो सिद्ध कीजिए कि

5. निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए:

(i)

$$(ii) \quad \frac{1+3i}{1-2i}$$

प्रश्न 6 से 9 में दिए गए प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए:

6.

7.

8.

9.

10. यदि $z_1 = 2 - i$, $z_2 = 1 + i$, का मान ज्ञात कीजिए।

11. यदि $a + ib =$, सिद्ध कीजिए कि, $a^2 + b^2 =$

12. माना $z_1 = 2 - i$, $z_2 = -2 + i$, निम्न का मान निकालिए।

$$(i) \quad \operatorname{Re}\left(\frac{z_1 z_2}{\bar{z}_1}\right) \quad (ii)$$

13. सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए।

14. यदि $(x - iy)(3 + 5i)$, $-6 - 24i$ की संयुगमी है, तो अस्तविक संख्याएँ x और y ज्ञात कीजिए।

15. का मापांक ज्ञात कीजिए।

16. यदि $(x + iy)^3 = u + iv$, तो दर्शाइए कि

17. यदि α और β भिन्न सम्मिश्र संख्याएँ हैं जहाँ $|\beta| = 1$, तब का मान ज्ञात कीजिए।

18. समीकरण $|1 - i|^x = 2^x$ के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

19. यदि $(a + ib)(c + id)(e + if)(g + ih) = A + iB$ है

तो दर्शाइए कि $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)(e^2 + f^2)(g^2 + h^2) = A^2 + B^2$

20. यदि , तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए।

सारांश

- ◆ $a+ib$ के प्रारूप की एक संख्या, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएँ हैं, एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है, a सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग और b इसका काल्पनिक भाग कहलाता है।
- ◆ माना $z_1 = a + ib$ और $z_2 = c + id$, तब
 - (i) $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$
 - (ii) $z_1 z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$
- ◆ किसी शून्येतर सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$ ($a \neq 0, b \neq 0$) के लिए, एक सम्मिश्र संख्या $\frac{a}{a^2+b^2} + i \frac{-b}{a^2+b^2}$, का अस्तित्व होता है, इसे z^{-1} द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है

और z का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है जिससे कि $(a+ib)$

$$= 1 + i0 = 1 \text{ प्राप्त होता है।}$$

- ◆ किसी पूर्णांक k के लिए, $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$
- ◆ सम्मिश्र संख्या $z = a + ib$ का संयुगमी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और $= a - ib$ द्वारा दर्शाया जाता है।
- ◆ सम्मिश्र संख्या $z = x + iy$ का ध्रुवीय रूप $r(\cos\theta + i \sin\theta)$, जहाँ $r = (z \text{ का मापांक})$ और $\cos\theta = \frac{x}{r}, \sin\theta = \quad (\theta, z \text{ का कोणांक कहलाता है।})$ θ का मान, जिससे कि $-\pi < \theta \leq \pi, z$ का प्रमुख कोणांक कहलाता है।
- ◆ एक n घातवाले बहुपद समीकरण के n मूल होते हैं।
- ◆ एक द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$, जहाँ $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0, b^2 - 4ac < 0,$

के हल $x = i$ के द्वारा प्राप्त होते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यूनानियों ने इस तथ्य को पहचाना था कि एक ऋण संख्या के वर्गमूल का वास्तविक संख्या पद्धति में कोई अस्तित्व नहीं है परंतु इसका श्रेय भारतीय गणितज्ञ Mahavira (850 ई०) को जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम इस कठिनाई का स्पष्टतः उल्लेख किया। “उन्होंने अपनी

कृति ‘गणित सार संग्रह’ में बताया कि ऋण (राशि) एक पूर्णवर्ग (राशि) नहीं है, अतः इसका वर्गमूल नहीं होता है।” एक दूसरे भारतीय गणितज्ञ Bhaskara ने 1150 ई० में अपनी कृति ‘बीजगणित’ में भी लिखा है, “ऋण राशि का कोई वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि यह एक वर्ग नहीं है।” Cardan (1545 ई०) ने $x + y = 10$, $xy = 40$ को हल करने में उत्पन्न समस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने $x = 5 + \dots$ तथा $y = 5 - \dots$ इसके हल के रूप में ज्ञात किया जिसे उन्होंने स्वयं अमान्यकर दिया कि ये संख्याएँ व्यर्थ (useless) हैं। Albert Girard (लगभग 1625 ई०) ने ऋण संख्याओं के वर्गमूल को स्वीकार किया और कहा कि, इससे हम बहुपदीय समीकरण की जितनी घात होगी, उतने मूल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। Euler ने सर्वप्रथम i को i संकेतन प्रदान किया तथा W.R. Hamilton (लगभग 1830 ई०) ने एक शुद्ध गणितीय परिभाषा देकर और तथाकथित ‘काल्पनिक संख्या’ के प्रयोग को छोड़ते हुए सम्मिश्र संख्या $a + ib$ को वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म (a, b) के रूप में प्रस्तुत किया।

$$\sqrt{-15}$$

